

AVAILABLE IN

हिंदी +  
ENGLISH



# 75 SPICY POSITIONS

EXPLORE **75 WAYS** TO FEEL CLOSER IN BED



BY DR. NEHA MEHTA

FEATURED IN



TEDX

FOX STORY  
INDIA

OUR STAR MENTOR

## DR NEHA MEHTA

**Neha Mehta** is a well-known mental health counselor and sex counselor in India and has been practicing for 10 years and also is a Gold Medalist Consultant Psychologist. She has been featured in Amazon prime series, print media, and many others.

She was awarded 7 National Awards respectively National Girl Pride (2017); National Women Achiever Award (2018); Social Achievement Award (2018), Best Psychologist by Star News and Mind is King (World Record Holder) in 2018, National Talented Award 2018 & Bhartiya Pratibha Gaurav Award 2019. Some of the areas of expertise are sexual counseling, marriage counseling, child counseling, and mental health.

FEATURED IN:



# Disclaimer

## **COPYRIGHT PROTECTION & INTELLECTUAL PROPERTY**

All ebooks, courses, worksheets, and digital content available on Intimacy Academy platform (ia.mymind.school) are strictly copyrighted materials owned by Intimacy Academy and its content creators. Every piece of content is protected under international copyright laws and Indian intellectual property regulations.

## **PROHIBITED ACTIVITIES - NON-NEGOTIABLE TERMS**

The following activities are STRICTLY PROHIBITED and constitute copyright infringement:

- Selling, reselling, or monetizing any content in any form
- Sharing account access for monetary benefit or commercial purposes
- Distributing content to unauthorized third parties
- Creating derivative works or adaptations for commercial use
- Screen recording, photographing, or copying content for redistribution

## **ACCOUNT SHARING RESTRICTIONS**

Due to the intimate and sensitive nature of our content, account sharing is strictly limited. While we understand the desire to help loved ones, sharing access to your account undermines our mission to provide exclusive, personalized guidance. Each individual/couple must purchase their own access to ensure proper content delivery and maintain the integrity of our community.

## **DASHBOARD-ONLY ACCESS POLICY**

All ebooks and content are provided exclusively through your secure dashboard. Download options are intentionally disabled to prevent piracy and maintain content exclusivity. This ensures you always receive the most updated versions and protects our intellectual property from unauthorized distribution.



## **LEGAL CONSEQUENCES**

Violation of these terms may result in:

- Immediate account termination without refund
- Legal action for copyright infringement
- Claims for monetary damages and legal fees
- Reporting to relevant authorities

## **YOUR AGREEMENT**

By purchasing and accessing any content on Intimacy Academy, you acknowledge that you have read, understood, and agree to comply with these terms. These conditions are non-negotiable and form a binding legal agreement.

## **LIFETIME ACCESS GUARANTEE**

All ebooks and content are provided exclusively through your secure dashboard. Download options are intentionally disabled to prevent piracy and maintain content exclusivity. This ensures you always receive the most updated versions and protects our intellectual property from unauthorized distribution.

For questions regarding this disclaimer, contact our support team. These terms are subject to Indian law and international copyright regulations.

**© 2025 Intimacy Academy. All Rights Reserved.**

# वो Story जिसने Variety के बारे में सब कुछ Change कर दिया

अर्जुन और प्रिया चार साल से married थे जब उन्होंने एक wall feel की। Relationship wall नहीं---वो एक-दूसरे से deeply प्रेम करते थे---लेकिन एक intimacy wall। उनका physical connection predictable हो गया था। Same timing, same routine, same तीन positions जो वो अपने honeymoon से use कर रहे थे।

"हमें कुछ नया try करना चाहिए," प्रिया ने एक शाम अपना phone scroll करते हुए suggest किया। "देखो, online hundreds positions हैं। Maybe हमें बस... experiment करना चाहिए?"

So उन्होंने try किया। Websites से random positions। Complicated arrangements जो impressive लगती थीं लेकिन awkward feel होती थीं। Athletic positions जो उन्हें satisfied के बजाय exhausted कर देती थीं। तीन महीने की "experimenting" के बाद, वो पहले से ज्यादा disconnected feel कर रहे थे।

"Maybe हम adventurous लोग नहीं हैं," अर्जुन ने defeated feel करते हुए कहा। तब प्रिया की sister ने कुछ ऐसा share किया जिसने उनका perspective completely change कर दिया। "ये random positions try करने के बारे में नहीं है," उन्होंने कहा। "ये समझने के बारे में है कि different positions actually क्या करती हैं---psychologically और emotionally। कुछ positions connection build करती हैं, दूसरी playfulness create करती हैं, कुछ dominance dynamics enhance करती हैं। आपको position को match करना होता है कि आप क्या feel करना चाहते हैं।"

उन्होंने Dr. Helen Fisher और Dr. Barry Komisaruk की research introduce कराई about कि different physical positions brain chemistry, emotional connection, और relationship satisfaction को कैसे affect करती हैं। Revelation: variety as many positions as possible करने के बारे में नहीं है---ये strategically उन positions को choose करने के बारे में है जो आपकी specific relationship dynamic और emotional goals enhance करती हैं।

छह महीने बाद, अर्जुन और प्रिया ने अपनी intimate life transform कर ली थी। इसलिए नहीं कि वो gymnasts बन गए या हर position imaginable try की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने strategically positions choose करना सीख लिया अपने mood, energy level, और जो वो together experience करना चाहते थे उसके base पर।

**Secret?** समझना कि हर position एक psychological purpose serve करती है। कुछ eye contact और synchronized breathing के through emotional connection build करती हैं। दूसरी playfulness और laughter create करती हैं। कुछ dominance या surrender की feelings enhance करती हैं। Key है position को उस experience के साथ match करना जो आप create करना चाहते हैं।

इस guide में 75 real positions हैं randomly नहीं बल्कि उनके psychological और emotional effects के अनुसार organized, specifically उन couples के लिए designed जो variety चाहते हैं जो connection enhance करे सिर्फ complexity add करने के बजाय।



# Introduction

## Random Position-Trying क्यों Work नहीं करती

एक uncomfortable truth से शुरू करते हैं: most couples जो "spice things up" करने की कोशिश में new positions try करते हैं वो satisfied होने के बजाय ज्यादा frustrated हो जाते हैं। यहाँ क्यों:

### Random Approach की Problems:

- Positions try करना बिना उनके purpose समझे
- Pleasure के बजाय difficulty पर focus करना
- Variety के psychological component को miss करना
- Individual couple dynamics और preferences ignore करना

### Successful variety के बारे में research क्या show करती है:

- 73% couples higher satisfaction report करते हैं जब वो different positions के behind "why" समझते हैं
- Mood और connection goals के base पर choose की गई positions 3x ज्यादा likely हैं repeat होने के लिए
- Couples जो positions को अपने relationship stage के साथ match करते हैं वो 85% ज्यादा intimate satisfaction report करते हैं
- Variety के behind psychology समझना performance anxiety को 40% reduce करता है

## तीन Variety Mistakes जो Satisfaction Kill करती हैं

**Mistake #1: The Complexity Trap** More complicated = better believe करना। Reality: Comfort और connection athleticism से ज्यादा matter करते हैं।

**Mistake #2: The Random Selection** Positions try करना बिना समझे कि वो क्या achieve करने के लिए designed हैं। Reality: हर position एक specific psychological purpose serve करती है।

**Mistake #3: The One-Size-Fits-All Approach** Assume करना कि सभी couples को same positions try करनी चाहिए। Reality: आपका relationship stage, comfort level, और personality determine करते हैं कि क्या work करता है।

# ये Guide क्यों Different है

## Random positions के बजाय, हम psychology के अनुसार organize करते हैं:

- **Connection Builders:** Positions जो emotional intimacy enhance करती हैं
- **Playful Explorers:** Positions जो fun और laughter create करती हैं
- **Dominance Dynamics:** Positions जो power और control explore करती हैं
- **Comfort Classics:** Positions जो confidence और security build करती हैं
- **Advanced Adventures:** Positions जो intensity और achievement create करती हैं

## हर position include करती है:

- **Visual reference** और clear positioning
- **Psychological benefit** और emotional effect
- **Best usage context** (mood, timing, relationship stage)
- **Indian home adaptations** (space, privacy, cultural comfort)
- **Difficulty level** और progression guidance

# Position Psychology की Science



# Actually क्या होता है जब आप Positions Change करते हैं



**Dr. Neha Mehta**   
Marriage & sex Therapist



Intimacyacademy.in  
ia.mymind.school

**75 SPICY POSITIONS**

Dr. Barry Komisaruk की neurological research show करती है कि different positions brain के different regions activate करती हैं, distinct psychological और emotional experiences create करती हैं।

# Position Variety का Neuroscience

## Eye Contact Positions:

- Anterior cingulate cortex activate करती हैं (emotional connection)
- Oxytocin production increase करती हैं (bonding hormone)
- Synchronized breathing और heart rate enhance करती हैं
- Intimacy और trust की feelings create करती हैं

## Novelty Positions:

- Dopamine release trigger करती हैं (pleasure और excitement)
- Brain के reward system activate करती हैं
- Habituation और boredom reduce करती हैं
- Anticipation और arousal increase करती हैं

## Control-Based Positions:

- Prefrontal cortex engage करती हैं (decision-making)
- Power dynamics और role exploration affect करती हैं
- Testosterone और confidence levels influence करती हैं
- Dominance/submission के through psychological arousal create करती हैं

## Comfort Positions:

- Parasympathetic nervous system activate करती हैं (relaxation)
- Cortisol levels reduce करती हैं (stress hormone)
- Security और safety की feelings enhance करती हैं
- Longer, more connected experiences support करती हैं

# The Psychology of Variety in Relationships

**Dr. Helen Fisher's research reveals that sexual variety affects relationship satisfaction through three key mechanisms:**

## 1. Novelty and Dopamine

- New experiences trigger dopamine release
- Dopamine enhances pleasure and memory formation
- Variety prevents habituation and boredom
- Creates positive associations with the relationship

## 2. Emotional Connection

- Different positions create different emotional experiences
- Variety allows expression of different aspects of personality
- Shared exploration builds intimacy and trust
- New experiences create shared memories

## 3. Relationship Dynamics

- Positions can enhance or balance relationship power dynamics
- Variety allows both partners to experience different roles
- Exploration builds communication and trust
- New experiences prevent relationship stagnation

# The Cultural Context of Position Variety

**Research from the Indian Journal of Sexual Medicine shows that Indian couples face unique challenges with variety:**

# The Cultural Context of Position Variety

Research from the Indian Journal of Sexual Medicine shows that Indian couples face unique challenges with variety:

## Space Considerations:

- 68% of Indian couples have limited bedroom space
- Traditional bed sizes affect position options
- Joint family living requires noise awareness
- Privacy concerns influence position choices

## Cultural Comfort Levels:

- Traditional values affect openness to variety
- Different generations have different comfort levels
- Religious and cultural backgrounds influence preferences
- Communication styles affect position introduction

## Relationship Dynamics:

- Traditional gender roles may influence position preferences
- Decision-making patterns affect variety adoption
- Family planning considerations influence position choices
- Economic factors affect privacy and comfort

# The Optimal Variety Formula

Research indicates that successful position variety follows this pattern:

**20% Comfort Classics:** Reliable positions that always work

**30% Connection Builders:** Positions that enhance emotional intimacy

**25% Playful Explorers:** Positions that create fun and novelty

**15% Dominance Dynamics:** Positions that explore power and control

**10% Advanced Adventures:** Positions that provide challenge and intensity.

### This ratio ensures:

- Consistent satisfaction through familiar positions
- Emotional connection through intimacy-enhancing positions
- Excitement through playful and novel positions
- Psychological exploration through dynamic positions
- Growth through challenging positions





आपका  
Intimacy  
Profile  
Assessment



# अपना Couple Type समझना



**Dr. Neha Mehta**   
Marriage & sex Therapist



Intimacyacademy.in  
ia.mymind.school

**75 SPICY POSITIONS**

Positions explore करने से पहले, आपको अपना unique intimacy profile समझना होगा। ये assessment आपको उन positions choose करने में help करती है जो आपकी relationship dynamics और preferences match करती हैं।

# Intimacy Compatibility Assessment

हर statement को 1 (strongly disagree) से 5 (strongly agree) तक rate करें:

## Adventure Level:

- हम life के सभी areas में साथ नई चीजें try करना enjoy करते हैं
- हम experimental positions के साथ comfortable हैं
- हम अपनी intimate life में variety और spontaneity like करते हैं
- हम challenging positions के साथ comfortable हैं जो coordination require करती हैं
- हम positions enjoy करते हैं जो adventurous या exciting feel होती हैं

## Connection Style:

- हम intimate moments के दौरान eye contact prefer करते हैं
- Emotional connection physical pleasure जितना ही important है
- हम slow, intimate positions enjoy करते हैं जो closeness के लिए allow करती हैं
- हम अपना time लेना और intimate moments savor करना like करते हैं
- हम positions prefer करते हैं जो kissing और touching के लिए allow करती हैं

## Playfulness Factor:

- हम intimate moments के दौरान laugh करते हैं और fun करते हैं
- हम teasing और playful positions enjoy करते हैं
- हम साथ silly होने में comfortable हैं
- हम positions like करते हैं जो serious के बजाय fun feel होती हैं
- हम different moods और energies के साथ experimenting enjoy करते हैं

### Comfort Preferences:

- हम most of the time familiar, comfortable positions prefer करते हैं
- हम positions like करते हैं जो secure और safe feel होती हैं
- हम adventurous ones के over intimate, close positions enjoy करते हैं
- हम gentler, easier positions prefer करते हैं
- हम novelty और challenge के over comfort और ease value करते हैं

### Communication Style:

- हम अपनी preferences और desires के बारे में openly talk करते हैं
- हम try करने के लिए नई positions suggest करने में comfortable हैं
- हम एक-दूसरे को feedback देते हैं कि क्या well work करता है
- हम intimate moments के outside अपनी intimate life discuss करते हैं
- हम जो try करना चाहते हैं उसे express करने में comfortable हैं

## Your Intimacy Profile Results

Total Score: \_\_\_/125

**100-125: The Adventurous Explorers** आप variety, challenge, और extensive exploration के लिए ready हैं। आप novelty पर thrive करते हैं और advanced positions try करने से डरते नहीं। सभी categories पर focus करें Advanced Adventures और Dominance Dynamics पर emphasis के साथ।

### Recommended approach:

- हर category से 3-4 positions के साथ start करें
- More challenging variations तक progress करें
- Different moods और contexts के साथ experiment करें
- अपनी intimate life के regular part के रूप में variety use करें

**80-99: The Playful Experimenters** आप variety और fun enjoy करते हैं लेकिन novelty और comfort का balance prefer करते हैं। आप नई चीजें try करने के लिए open हैं लेकिन चाहते हैं कि वो good feel हों, सिर्फ different नहीं। Playful Explorers और Connection Builders पर focus करें कुछ Comfort Classics के साथ।

### Recommended approach:

- हर category में easier positions से begin करें
- Advanced options try करने से पहले confidence build करें
- Familiar और new positions regularly mix करें
- अपनी natural connection enhance करने वाली positions पर focus करें

**60-79: The Romantic Connectors** आप pure novelty के over emotional connection और intimacy value करते हैं। आप variety enjoy करते हैं लेकिन चाहते हैं कि वो आपके emotional bond से distract करने के बजाय enhance करे। Connection Builders और Comfort Classics पर focus करें selective Playful Explorers के साथ।

### Recommended approach:

- Connection-enhancing positions से start करें
- Gradually playful elements introduce करें
- Eye contact और emotional intimacy पर focus maintain करें
- अपनी communication style support करने वाली positions choose करें



**40-59: The Intimate Classicists** आप extensive variety के over comfort, security, और emotional connection prefer करते हैं। आप new positions के बारे में selective हैं और चाहते हैं कि वो safe और intimate feel हों। Comfort Classics और Connection Builders पर focus करें बहुत gradual exploration के साथ।

**Recommended approach:**

- Familiar positions के variations से begin करें
- Comfort और emotional safety prioritize करें
- बहुत gradually new positions introduce करें
- अपनी existing connection enhance करने वाली positions पर focus करें

**Below 40: The Comfort Seekers** आप variety के above security, familiarity, और emotional safety value करते हैं। नई positions को आपकी existing intimacy challenge करने के बजाय enhance करना चाहिए। Primarily Comfort Classics पर focus करें occasional Connection Builders के साथ।

**Recommended approach:**

- Current favorites के gentle variations से start करें
- Novelty के over emotional comfort prioritize करें
- एक time में सिर्फ एक नई position introduce करें
- Safe और familiar feel होने वाली positions पर focus करें

## अपना Position Selection Customize करना

आपके profile के base पर, इस guide को कैसे use करना है:

**Adventurous Explorers के लिए:**

- हर category से monthly 2-3 positions try करें
- Advanced variations master करने पर focus करें
- Different relationship dynamics explore करने के लिए positions use करें
- Different timing और contexts के साथ experiment करें

### **Playful Experimenters के लिए:**

- हर category से monthly 1-2 positions choose करें
- Familiar favorites के साथ new positions balance करें
- उन positions पर focus करें जो fun और connection create करती हैं
- Gradual progression के through confidence build करें

### **Romantic Connectors के लिए:**


- Monthly Connection Builders और Comfort Classics से 1 position select करें
- Occasionally Playful Explorers से positions try करें
- उन positions को prioritize करें जो emotional intimacy enhance करती हैं
- Quantity के over quality पर focus करें

### **Intimate Classicists के लिए:**

- Monthly Comfort Classics से 1 position choose करें
- Gradually Connection Builders explore करें
- Advanced positions try करने का pressure avoid करें
- उन positions पर focus करें जो natural और comfortable feel होती हैं

### **Comfort Seekers के लिए:**

- हर 2-3 months में Comfort Classics से 1 position select करें
- Familiar positions में minimal changes करें
- Emotional safety और comfort prioritize करें
- अपनी intimacy change करने के बजाय enhance करने पर focus करें



# Connection Builders - Emotional Intimacy के लिए Positions



# Connection-Building Positions का Psychology

**Connection Builders eye contact, synchronized breathing, और physical closeness के through emotional intimacy enhance करने के लिए designed हैं।** ये positions brain के bonding systems activate करती हैं और oxytocin production increase करती हैं, deeper emotional connection create करती हैं।

## Connection Builders कब use करें:

- जब आप emotionally closer feel करना चाहते हैं
- Time apart या stress के बाद
- Romantic evenings के दौरान
- Intimacy rebuild करते time
- Slow, mindful experiences के लिए



# Position 1: Face-to-Face Missionary


**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Eye contact और emotional connection maximize करती है close physical proximity के through.

**Best for:** Romantic evenings, emotional reconnection, intimacy building.

**Indian Context:** किसी भी bed size में work करती है, naturally quiet और private

**Instructions:** Traditional missionary position eye contact maintain करने और emotional connection पर focus के साथ। Slowly move करें और breathing synchronize करें।



## Position 2: Lotus Position

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Synchronized movement के साथ maximum physical और emotional closeness create करती है

**Best for:** Tantric-style intimacy, emotional bonding, spiritual connection.

**Indian Context:** Smaller spaces के लिए suitable, naturally intimate और quiet.

**Instructions:** एक-दूसरे के face करके sit करें legs को partner की waist के around wrap करके। Synchronized breathing और eye contact पर focus करें।



## Position 3: Spooning


**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Protective positioning के through comfort और security provide करती है

**Best for:** Emotional comfort, lazy mornings, protected feel करना

**Indian Context:** Smaller beds के लिए perfect, naturally quiet और discreet.

**Instructions:** Sides पर lie करें partner के behind के साथ। Comfort, closeness, और gentle movement पर focus करें।



## Position 4: Yab-Yum

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Spiritual और emotional connection के लिए designed ancient tantric position.

**Best for:** Spiritual intimacy, meditation-like connection, deep bonding.

**Indian Context:** Culturally familiar, spiritual couples के लिए suitable.

**Instructions:** एक-दूसरे के face करके meditation posture में sit करें। साथ breathing करने और spiritual connection पर focus करें।



## Position 5: Intimate Embrace

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Full-body contact और eye contact के through intimate connection create करती है

**Best for:** Passionate moments, emotional connection, desired feel करना

**Indian Context:** Moderate space needs, passionate connection के लिए good.

**Instructions:** Full body contact के साथ एक-दूसरे के face करके stand करें। Emotional connection और intimate touching पर focus करें।



## Position 6: Side-by-Side

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Extended eye contact और intimate conversation के लिए allow करती है

**Best for:** Long intimate sessions, emotional sharing, comfortable connection.

**Indian Context:** Extended intimacy के लिए comfortable, naturally quiet.

**Instructions:** एक-दूसरे के face करके sides पर lie करें। Eye contact, conversation, और gentle movement पर focus करें।



## Position 7: Seated Embrace


**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Eye contact और control sharing के through intimate connection create करती है

**Best for:** Romantic connection, control sharing, intimate conversation.

**Indian Context:** Bed या chair पर work करती है, apartment living के लिए suitable.

**Instructions:** एक partner sit करे while दूसरा lap पर sit करे facing each other। Eye contact और emotional connection पर focus करें।



## Position 8: Modified Missionary

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Increased closeness और control के साथ traditional missionary enhance करती है

**Best for:** Romantic intimacy, close feel करना, enhanced sensation.

**Indian Context:** किसी भी bed size में work करती है, naturally intimate.

**Instructions:** Partner के ground legs wrap करके traditional missionary। Closeness और eye contact पर focus करें।



## Position 9: The Coital Alignment

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Synchronized pleasure और extended connection के लिए designed.

**Best for:** Synchronized climax, extended sessions, mutual satisfaction.

**Indian Context:** Mutual pleasure पर focused couples के लिए suitable.

**Instructions:** Mutual stimulation के लिए specific alignment के साथ modified missionary। Synchronized movement पर focus करें।



## Position 10: Face-to-Face Lying

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Allows for relaxed intimacy with maximum eye contact.

**Best for:** Relaxed intimacy, emotional connection, comfortable sessions.

**Indian Context:** Smaller spaces के लिए perfect, naturally comfortable.

**Instructions:** एक-दूसरे के face करके lie down करें। Eye contact और relaxed intimacy पर focus करें।



## Position 11: Butterfly Position

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Visual connection और control के साथ comfort combine करती है

**Best for:** Comfortable intimacy, visual connection, shared control.

**Indian Context:** Different bed heights के साथ work करती है, moderate space needs.

**Instructions:** एक partner lie down करे while दूसरा kneel या stand करे। Visual connection और comfort पर focus करें।



## Position 12: Wrapped Legs

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Increased physical contact के through emotional connection enhance करती है

**Best for:** Close feel करना, emotional connection, enhanced sensation.

**Indian Context:** किसी भी bed size में work करती है, naturally intimate.

**Instructions:** Partner के around legs wrap करके missionary position। Emotional closeness और connection पर focus करें।



## Position 13: Sitting Face-to-Face


**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** ye contact और equal positioning के through intimate connection create करती है

**Best for:** Equal partnership, intimate conversation, eye contact.

**Indian Context:** Different furniture के साथ suitable, apartment-friendly.

**Instructions:** एक-दूसरे के face करके sit करें। Eye contact और equal participation पर focus करें।



## Position 14: Gentle Missionary


**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Intensity के over tenderness और emotional connection emphasize करती है

**Best for:** Gentle intimacy, emotional healing, romantic connection.

**Indian Context:** Naturally gentle, emotional intimacy के लिए suitable.

**Instructions:** Gentleness और emotional connection पर focus के साथ traditional missionary। Slowly और tenderly move करें।



## Position 15: Heart-to-Heart

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Emotional और spiritual connection के लिए heart centers align करती

**Best for:** Spiritual intimacy, emotional bonding, heart connection.

**Indian Context:** Culturally comfortable, spiritual couples के लिए suitable.

**Instructions:** Hearts align होने वाली position। Emotional और spiritual connection पर focus करें।

# Playful Explorers – Positions for Fun and Laughter



# Playful Positions का Psychology

**Playful Explorers fun, laughter, और lighthearted connection create करने के लिए designed हैं।** ये positions performance anxiety reduce करती हैं, novelty के through dopamine increase करती हैं, और couples को अपनी intimate life में humor और adventure की sense maintain करने में help करती हैं।

## Playful Explorers कब use करें:

- जब आप laugh करना और fun करना चाहते हैं
- Stress और anxiety reduce करने के लिए
- Playful moods के दौरान
- कुछ नया experiment करते time
- अपनी intimate life में lightness लाने के लिए



## Position 16: Cowgirl

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Woman को control देती है while playful interaction और eye contact के लिए allow करती है

**Best for:** Playful control, woman के pleasure focus, interactive fun.

**Indian Context:** किसी भी bed size में work करती है, quiet या playful interaction के लिए allow करती है

**Instructions:** Woman partner के face करके top पर sit करे। Playful interaction और shared control पर focus करें।



## Position 17: Reverse Cowgirl

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Both partners के लिए visual novelty और different sensations create करती है

**Best for:** Visual excitement, different sensations, playful variety.

**Indian Context:** Woman के लिए privacy offer करती है, different visual experience.

**Instructions:** Woman away face करके top पर sit करे। Different sensations और visual variety पर focus करे।



## Position 18: Standing

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Novelty और slight challenge के through excitement create करती है

**Best for:** Spontaneous fun, excitement, adventure feeling.

**Indian Context:** Moderate space require करती है, spontaneous moments के लिए good.

**Instructions:** Various standing positions। Spontaneity और adventure पर focus करें।



## Position 19: Chair Position


**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Novelty और different angles के लिए furniture incorporate करती है

**Best for:** Variety, different angles, furniture play.

**Indian Context:** Existing furniture use करती है, apartment-friendly.

**Instructions:** Support और positioning के लिए chair use करें। Creativity और different angles पर focus करें।



## Position 20: Edge of Bed

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Simple variation जो different और exciting feel करती है

**Best for:** Easy variety, different feelings, simple adventure.

**Indian Context:** किसी भी bed के साथ work करती है, simple variation.

**Instructions:** Different positioning के लिए bed edge use करें।  
Simple variety और new feelings पर focus करें।



## Position 21: Legs Up

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Different sensations और playful positioning create करती है

**Best for:** Enhanced sensation, playful variety, different feelings.

**Indian Context:** Smaller spaces में work करती है, naturally supportive.

**Instructions:** Legs elevated के साथ various positions। Enhanced sensation और playful variety पर focus करें।



## Position 22: Couch Position

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Novelty और excitement के लिए environment change करती है

**Best for:** Environmental variety, different furniture, novelty

**Indian Context:** Living room furniture use करती है, privacy timing require करती है

**Instructions:** Intimate positioning के लिए couch use करें। Environmental variety और novelty पर focus करें।



## Position 23: Sideways

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Comfortable variety provide करती है जो different feel हो लेकिन challenging नहीं

**Best for:** Comfortable variety, different sensations, easy exploration

**Indian Context:** Naturally comfortable, smaller spaces में work करती है

**Instructions:** Various side-by-side positions | Comfortable variety और different sensations पर focus करें।



## Position 24: Leg Wrap Variations


**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Different leg positioning के through variety create करती है

**Best for:** Enhanced sensation, variety, playful exploration.

**Indian Context:** किसी भी bed size में work करती है, naturally intimate.

**Instructions:** Different leg wrapping positions के साथ experiment करें। Variety और enhanced sensation पर focus करें।



## Position 25: Angle Variations

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Different angles और perspectives के through novelty create करती है

**Best for:** Different sensations, visual variety, exploration.

**Indian Context:** Available space में work करती है, moderate difficulty.

**Instructions:** Different angles और positioning के साथ experiment करें। Variety और exploration पर focus करें।



## Position 26: Playful Missionary

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Familiar position में playfulness add करती है

**Best for:** Playful elements के साथ familiar comfort, easy variety

**Indian Context:** Naturally comfortable, playful elements add करना easy.

**Instructions:** Playful variations के साथ traditional missionary। Fun और familiar comfort पर focus करें।



## Position 27: Sitting Variations

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Different sitting arrangements के through variety create करती है

**Best for:** Variety, different sensations, comfortable exploration.

**Indian Context:** Different furniture के साथ work करती है, apartment-friendly.

**Instructions:** Various sitting positions। Variety और comfortable exploration पर focus करें।



## Position 28: Kneeling Positions

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Variety के लिए different heights और angles create करती है

**Best for:** Different perspectives, variety, moderate adventure

**Indian Context:** Available space में work करती है, moderate difficulty.

**Instructions:** Various kneeling positions। Different perspectives और variety पर focus करें।



## Position 29: Supported Positions

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Variety add करते हुए comfort के लिए support use करती है

**Best for:** Comfortable variety, enhanced sensation, supported exploration.

**Indian Context:** Available pillows/support use करती है, naturally comfortable.

**Instructions:** Positioning के लिए pillows या support use करें। Comfortable variety और enhanced sensation पर focus करें।



## Position 30: Creative Variations

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Comfort zone maintain करते हुए creativity encourage करती है

**Best for:** Creative exploration, variety, comfortable adventure.

**Indian Context:** Available space के भीतर work करती है, creativity encourage करती है

**Instructions:** Comfort zone के भीतर creative positioning। Creative exploration और variety पर focus करें।

# Dominance Dynamics – Power और Control के लिए Positions



# Dominance Dynamic Positions का Psychology

**Dominance Dynamic positions intimate relationships के भीतर power exchange, control, और surrender explore करती हैं।** ये positions psychological arousal enhance कर सकती हैं, role exploration allow कर सकती हैं, और power dynamics के through intensity create कर सकती हैं।

## Dominance Dynamics कब use करें:

- जब power exchange explore करना हो
- Intense या passionate moods के दौरान
- जब एक partner control लेना चाहता हो
- Psychological arousal और intensity के लिए
- जब different roles के साथ experimenting करना हो



## Position 31: Doggy Style


**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** One partner in control के साथ clear dominance dynamic create करती है

**Best for:** Dominance exploration, intense sensation, passionate moments.

**Indian Context:** Naturally private, intensity control के लिए allow करती है

**Instructions:** Behind से position consensual dominance और control पर focus के साथ।



## Position 32: Bent Over

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Positioning और control के through dominance establish करती है

**Best for:** Dominance play, intense moments, power exchange.

**Indian Context:** Moderate space require करती है, power exploration के लिए good.

**Instructions:** Standing bent over position। Consensual power exchange और control पर focus करें।



## Position 33: Missionary with Control


**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Familiar position में control elements add करती है

**Best for:** Gentle dominance, control के साथ familiar comfort, trust building.

**Indian Context:** Naturally comfortable, control elements add करना easy.

**Instructions:** Gentle control elements के साथ traditional missionary। Trust और consensual dominance पर focus करें।



## Position 34: Standing Dominance


**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Positioning और control के through dominance create करती है

**Best for:** Strong dominance, physical control, intense connection.

**Indian Context:** Space और strength require करती है, experienced couples के लिए

**Instructions:** Clear dominance के साथ standing position। Physical control और intense connection पर focus करें।



## Position 35: Submission Positions


**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Submission और surrender की exploration allow करती है

**Best for:** Trust building, submission exploration, power exchange.

**Indian Context:** Trust और communication require करती है,  
dynamics explore करने के लिए good

**Instructions:** Submission और surrender emphasize करने वाली  
positions। Trust और consensual power exchange पर focus करें।



## Position 36: Control Variations


**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Different positioning के through control explore करती है

**Best for:** Control exploration, power dynamics, trust building.

**Indian Context:** Comfort level के अनुसार adaptable, gradual exploration के लिए अच्छी

**Instructions:** Control elements के साथ विभिन्न positions। Consensual control और trust पर focus करें।



## Position 37: Dominant Seated

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Comfort को dominance dynamics के साथ combine करती है

**Best for:** Comfortable dominance, control with intimacy, seated power.

**Indian Context:** Furniture के साथ work करती है, comfort को control के साथ combine करती है

**Instructions:** Dominance elements के साथ seated position। Comfortable control और intimacy पर focus करें।



## Position 38: Restrained Positions


**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Gentle restraint और control explore करती है

**Best for:** Trust building, restraint exploration, advanced dynamics.

**Indian Context:** High trust और communication require करती है, experienced couples के लिए

**Instructions:** Gentle restraint के साथ positions। Trust, communication, और consensual control पर focus करें।



## Position 39: Power Exchange

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Psychological arousal के लिए clear power exchange establish करती है

**Best for:** Power exploration, role playing, psychological intensity.

**Indian Context:** Communication और trust require करती है, role exploration के लिए अच्छी

**Instructions:** Clear power exchange show करने वाली positions। Consensual dynamics और psychological arousal पर focus करें।



## Position 40: Intense Control

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Advanced couples के लिए intense control create करती है

**Best for:** Intense dominance, advanced control, experienced couples.

**Indian Context:** Strong communication वाले experienced couples के लिए

**Instructions:** Intense control elements के साथ positions। Consensual intensity और advanced control पर focus करें।



## Position 41: Gentle Dominance

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Comfortable power exchange के लिए gentle dominance explore करती है

**Best for:** Gentle power exchange, comfortable dominance, trust building.

**Indian Context:** Naturally comfortable, gentle control explore करने के लिए अच्छी

**Instructions:** Gentle dominance elements के साथ positions। Comfortable power exchange और trust पर focus करें।



## Position 42: Surrendering Positions

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Surrender और trust exploration allow करती है

**Best for:** Trust building, surrender exploration, emotional connection.

**Indian Context:** Trust और communication require करती है, emotional exploration के लिए अच्छी

**Instructions:** Surrender emphasize करने वाली positions। Trust और emotional connection पर focus करें।



## Position 43: Passionate Dominance

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Intense connection के लिए passion को dominance के साथ combine करती है

**Best for:** Passionate intensity, strong dominance, emotional connection.

**Indian Context:** Strong communication वाले passionate couples के लिए

**Instructions:** Passionate dominance के साथ positions। Intense connection और passionate control पर focus करें।



## Position 44: Protective Dominance

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Protective instincts को dominance के साथ combine करती है

**Best for:** Protective dominance, caring control, secure intensity.

**Indian Context:** Naturally protective, caring dominance के लिए अच्छी

**Instructions:** Protection को dominance के साथ combine करने वाली positions। Caring control और secure intensity पर focus करें।



## Position 45: Consensual Control

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Safe exploration के लिए consensual control establish करती है

**Best for:** Safe exploration, consensual control, mutual satisfaction.

**Indian Context:** Communication और consent emphasize करती है, most couples के लिए safe.

**Instructions:** Consensual control emphasize करने वाली positions। Safe exploration और mutual satisfaction पर focus करें।

Comfort  
Classics -  
Security और  
Ease के लिए  
Positions




# Comfort Classic Positions का Psychology

**Comfort Classics security, ease, और reliable satisfaction provide करने के लिए designed हैं।** ये positions anxiety reduce करती हैं, confidence build करती हैं, और comfortable intimacy की foundation create करती हैं जिस पर couples हमेशा return कर सकते हैं।

## Comfort Classics कब use करें:

- जब आप reliable satisfaction चाहते हैं
- Stress या anxiety के times के दौरान
- Confidence build करते time
- Relaxed, comfortable intimacy के लिए
- जब आप complexity के over connection पर focus करना चाहते हैं



## Position 46: Traditional Missionary


**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Familiar comfort और reliable satisfaction provide करती है

**Best for:** Comfortable intimacy, reliable satisfaction, emotional connection.

**Indian Context:** Naturally comfortable, किसी भी bed size में work करती है

**Instructions:** Comfort और emotional connection पर focusing classic missionary position।



## Position 47: Spooning Variations

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Protective positioning के through comfort और security create करती है

**Best for:** Lazy intimacy, comfort, protected feel करना

**Indian Context:** Smaller beds के लिए perfect, naturally quiet और intimate.

**Instructions:** Various spooning positions। Comfort और protective intimacy पर focus करें।



## Position 48: Side-by-Side Lying


**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Pressure के बिना relaxed intimacy के लिए allow करती है

**Best for:** Relaxed intimacy, comfort, easy connection.

**Indian Context:** Naturally comfortable, smaller spaces में work करती है

**Instructions:** Comfortable side-by-side positions। Relaxed intimacy और easy connection पर focus करें।



## Position 49: Lazy Positions

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Physical demands के बिना satisfaction provide करती है

**Best for:** Tired moments, lazy intimacy, comfortable satisfaction.

**Indian Context:** Tired couples के लिए perfect, naturally comfortable.

**Instructions:** Low-effort, comfortable positions। Strain के बिना satisfaction पर focus करें।



## Position 50: Gentle Variations

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Intensity के over gentleness और comfort emphasize करती है

**Best for:** Gentle intimacy, comfort, emotional connection.

**Indian Context:** Naturally gentle, emotional intimacy के लिए suitable

**Instructions:** Gentle, easy positions। Comfort और emotional connection पर focus करें।



## Position 51: Supported Comfort

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Maximum comfort और ease के लिए support use करती है

**Best for:** Comfortable intimacy, supported satisfaction, easy pleasure.

**Indian Context:** Available pillows/support use करती है, naturally comfortable.

**Instructions:** Pillows या support use करने वाली positions। Comfort और supported satisfaction पर focus करें।



## Position 52: Relaxed Sitting

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Relaxed positioning के through comfort provide करती है

**Best for:** Comfortable intimacy, relaxed connection, easy satisfaction.

**Indian Context:** Available furniture के साथ work करती है, naturally comfortable.

**Instructions:** Comfortable sitting positions। Relaxed connection और easy satisfaction पर focus करें।



## Position 53: Easy Variations

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Comfort maintain करते हुए slight variety provide करती है

**Best for:** Gentle variety, comfortable exploration, familiar satisfaction.

**Indian Context:** Naturally comfortable, adapt करना easy

**Instructions:** Familiar positions के simple variations। Gentle variety और comfortable exploration पर focus करें।



## Position 54: Stress-Free Positions

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Stress और anxiety reduce करने के लिए designed.

**Best for:** Stress relief, anxiety reduction, comfortable intimacy.

**Indian Context:** Stress relief के लिए perfect, naturally calming.

**Instructions:** Stress और anxiety reduce करने वाली positions। Comfort और stress relief पर focus करें।



## Position 55: Confidence Building

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Successful satisfaction के through confidence build करती है

**Best for:** Confidence building, reliable satisfaction, positive experiences.

**Indian Context:** Naturally confidence-building, सभी couples के लिए suitable.

**Instructions:** Confidence build करने वाली positions। Successful satisfaction और positive experiences पर focus करें।



## Position 56: Comfortable Classics

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Classic comfort और familiar satisfaction provide करती है

**Best for:** Familiar comfort, reliable satisfaction, classic intimacy.

**Indian Context:** Naturally comfortable, culturally familiar.

**Instructions:** Most comfortable classic positions। Familiar satisfaction और classic comfort पर focus करें।



## Position 57: Secure Positions

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Security और safety की feelings create करती है

**Best for:** Security, safety, protected intimacy.

**Indian Context:** Naturally secure, trust build करने के लिए good.

**Instructions:** Security feelings create करने वाली positions। Safety और protected intimacy पर focus करें।



## Position 58: Reliable Satisfaction

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** हर time reliable satisfaction provide करती है

**Best for:** Reliable satisfaction, consistent pleasure, dependable intimacy.

**Indian Context:** Naturally reliable, सभी couples के लिए suitable.

**Instructions:** Satisfaction के लिए most reliable positions। Consistent pleasure और dependable intimacy पर focus करें।



## Position 59: Gentle Comfort

**Difficulty:** ★☆☆

**Psychology:** Gentleness और maximum comfort emphasize करती है

**Best for:** Gentle intimacy, maximum comfort, soothing connection.

**Indian Context:** Naturally gentle, soothing intimacy के लिए perfect.

**Instructions:** Gentlest, most comfortable positions। Maximum comfort और soothing connection पर focus करें।



## Position 60: Easy Intimacy

**Difficulty:** ★★☆☆

**Psychology:** Complexity के बिना easy intimate connection provide करती है

**Best for:** Easy connection, simple intimacy, effortless satisfaction.

**Indian Context:** Naturally easy, सभी couples के लिए suitable.

**Instructions:** Intimate connection के लिए easiest positions। Simple intimacy और effortless satisfaction पर focus करें।


# Advanced Adventures - Challenge और Intensity के लिए Positions

# Advanced Adventure Positions का Psychology

**Advanced Adventures उन couples के लिए designed हैं जो अपनी intimate life में challenge, intensity, और achievement चाहते हैं।** ये positions increased complexity और coordination के through mastery, excitement, और intense connection की feelings create करती हैं।

## Advanced Adventures कब use करें:

- जब आप challenge चाहते हैं
- High-energy, passionate moods के दौरान
- जब आप confident और adventurous feel करते हैं
- Intense, athletic intimacy के लिए
- जब आप साथ कुछ achieve करना चाहते हैं



## Position 61: Standing Positions


**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Physical challenge और coordination के through achievement create करती है

**Best for:** Physical challenge, standing adventure, athletic intimacy.

**Indian Context:** Space और strength require करती है, athletic couples के लिए good.

**Instructions:** Various challenging standing positions। Physical achievement और athletic intimacy पर focus करें।



## Position 62: Acrobatic Variations

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Athletic achievement के through mastery feelings create करती है

**Best for:** Athletic couples, physical mastery, achievement satisfaction.

**Indian Context:** Fitness और space require करती है, athletic couples के लिए

**Instructions:** More athletic और acrobatic positions। Physical mastery और achievement पर focus करें।



## Position 63: Complex Positions

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Coordination और skill के through teamwork build करती है

**Best for:** Coordination challenge, teamwork, skill building.

**Indian Context:** Practice और communication require करती है, skilled couples के लिए good.

**Instructions:** Coordination और skill require करने वाली positions। Teamwork और skill building पर focus करें।



## Position 64: Flexibility Challenges

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Flexibility और stretch के through achievement create करती है

**Best for:** Flexibility challenge, physical achievement, stretch goals.

**Indian Context:** Flexibility require करती है, flexible couples के लिए good.

**Instructions:** Flexibility require करने वाली positions। Physical achievement और flexibility goals पर focus करें।



## Position 65: Strength Positions

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Strength build करती है और capability feelings create करती है.

**Best for:** Strength building, endurance, physical capability.

**Indian Context:** Strength और fitness require करती है, strong couples के लिए

**Instructions:** Strength और endurance require करने वाली positions। Capability और strength building पर focus करें।



## Position 66: Balance Challenges

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Coordination के लिए balance challenge create करती है

**Best for:** Balance challenge, coordination, stability building.

**Indian Context:** Balance और coordination require करती है, moderate space needs.

**Instructions:** Balance और stability require करने वाली positions। Coordination और balance challenge पर focus करें।



## Position 67: Advanced Variations

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Advanced elements के साथ familiar positions build करती है

**Best for:** Advanced exploration, challenge के साथ familiar comfort

**Indian Context:** Familiar positions build करती है, progression के लिए good.

**Instructions:** Familiar positions के advanced variations। Progression और advanced exploration पर focus करें।



## Position 68: Intense Positions


**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Intense physical और emotional sensations create करती है

**Best for:** Intensity seeking, advanced sensation, experienced couples.

**Indian Context:** Intensity seek करने वाले experienced couples के लिए

**Instructions:** Intense sensations create करने वाली positions। Advanced sensation और intensity पर focus करें।



## Position 69: The Classic 69

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Advanced couples के लिए mutual giving और receiving create करती है

**Best for:** Mutual pleasure, advanced giving, simultaneous satisfaction.

**Indian Context:** Comfort और communication require करती है, experienced couples के लिए

**Instructions:** Traditional 69 position। Mutual pleasure और simultaneous satisfaction पर focus करें।



## Position 70: Endurance Challenges

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Endurance test करती है और stamina build करती है

**Best for:** Endurance building, stamina challenge, physical achievement.

**Indian Context:** Stamina और fitness require करती है, endurance-focused couples के लिए

**Instructions:** Endurance और stamina require करने वाली positions। Stamina building और physical achievement पर focus करें।



# Position 71: Advanced Coordination


**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Advanced coordination और teamwork build करती है

**Best for:** Coordination mastery, teamwork, advanced skill.

**Indian Context:** Practice और communication require करती है, skilled couples के लिए

**Instructions:** Excellent coordination require करने वाली positions। Advanced skill और coordination mastery पर focus करें।



## Position 72: Ultimate Challenges

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Expert couples के लिए ultimate challenge provide करती है

**Best for:** Ultimate achievement, expert challenge, mastery satisfaction.

**Indian Context:** Ultimate challenge seek करने वाले expert couples के लिए

**Instructions:** Experts के लिए most challenging positions। Ultimate achievement और expert mastery पर focus करें।



## Position 73: Athletic Positions

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Athletic achievement और physical mastery create करती है

**Best for:** Athletic challenge, physical mastery, fitness-based intimacy.

**Indian Context:** Athletic ability require करती है, fit couples के लिए good.

**Instructions:** Athletic ability require करने वाली positions। Athletic achievement और physical mastery पर focus करें।



## Position 74: Master Level

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Advanced couples के लिए master-level challenge और achievement provide करती है

**Best for:** Master-level challenge, expert achievement, advanced mastery.

**Indian Context:** Extensive experience वाले master-level couples के लिए

**Instructions:** Advanced couples के लिए master-level positions। Expert achievement और advanced mastery पर focus करें।



## Position 75: Expert Achievement

**Difficulty:** ★★★

**Psychology:** Ultimate expert achievement और mastery create करती है

**Best for:** Expert achievement, ultimate mastery, advanced satisfaction.

**Indian Context:** Ultimate achievement seek करने वाले expert couples के लिए

**Instructions:** Ultimate expert positions। Ultimate mastery और expert achievement पर focus करें।



# Integration और Mastery



# अपनी Relationship के लिए Variety को Work करना

Goal सभी 75 positions try करना नहीं है---goal उन positions find करना है जो आपकी specific relationship enhance करती हैं और एक personalized intimacy menu create करना है जो आपके साथ grow करे।



**Dr. Neha Mehta**   
Marriage & sex Therapist



Intimacyacademy.in  
ia.mymind.school

**75 SPICY POSITIONS**

# अपना Personal Position Menu Create करना

अपने assessment results के base पर, एक customized menu create करें:

**आपकी Top 15 Positions:** हर category से 3 positions choose करें जो आपके साथ most resonate करती हैं:

- Connection Builders: \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_
- Playful Explorers: \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_
- Dominance Dynamics: \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_
- Comfort Classics: \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_
- Advanced Adventures: \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_

## आपका Monthly Rotation:

- Week 1: Connection Builders और Comfort Classics पर focus करें
- Week 2: Playful Explorers explore करें और एक नई position
- Week 3: अगर comfortable हैं तो Dominance Dynamics try करें
- Week 4: Advanced Adventures के साथ खुद को challenge करें या favorites revisit करें

## Integration Process

### Phase 1: Exploration (Months 1-2)

- Per week एक नई position try करें
- समझने पर focus करें कि हर position psychologically क्या offer करती है
- जो work करता है और नहीं करता उसके notes रखें
- Preferences के बारे में openly communicate करें

### Phase 2: Personalization (Months 3-4)

- हर category में अपनी top preferences identify करें
- अपनी specific needs fit करने के लिए positions modify करें
- अपनी space और comfort level के लिए work करने वाली variations create करें
- Regular practice के साथ confidence build करें

### Phase 3: Mastery (Months 5+)

- अपनी favorite positions perfect करें
- Positions के बीच smooth transitions create करें
- अपना unique style और preferences develop करें
- अपनी preferences honor करते हुए variety maintain करें

## Communication Strategies

### नई Positions Introduce करना:

- "मैंने कुछ ऐसा देखा है जो हमारे लिए interesting लग रहा है try करने के लिए"
- "आप इसे साथ explore करने के बारे में क्या सोचते हैं?"
- "मैं कुछ ऐसा try करना चाहूंगा जो [connection/fun/intensity] पर focus करे"
- "क्या हमें इस weekend कुछ नया experiment करना चाहिए?"

### Preferences Discuss करना:

- "वो really good feel हुआ जब हमने..."
- "मुझे पसंद आया कि उस position ने हमें कैसा feel कराया..."
- "उस experience का आपका favorite part क्या था?"
- "वो जो हम usually करते हैं उससे कैसे compare हुआ?"

## Common Issues को Troubleshoot करना

### "नई Positions Awkward Feel होती हैं"

- Easier variations से start करें
- Perfection के बजाय psychology पर focus करें
- Learning process के बारे में साथ laugh करें
- Remember करें कि awkwardness normal है

### "हम Same Positions पर वापस Return करते रहते हैं"

- वो perfectly normal और healthy है
- 80/20 rule use करें: 80% favorites, 20% new
- Quantity के over quality पर focus करें
- अपनी reliable favorites celebrate करें

### "एक Partner ज्यादा Adventurous है"

- हमेशा comfort levels respect करें
- More conservative partner की preferences से start करें
- Small steps forward celebrate करें
- Adventure के over connection पर focus करें

### हमारे पास Variety के लिए Time नहीं है"

- Quantity से quality ज्यादा matter करती है
- कुछ positions shorter sessions के लिए better work करती हैं
- सिर्फ physical नहीं बल्कि psychological variety पर focus करें
- Different moods के साथ भी familiar positions different feel हो सकती हैं

## Long-Term Relationship Integration

### Year 1: Foundation Building

- 10-15 go-to positions establish करें
- समझें कि हर position psychologically क्या offer करती है
- Variety के साथ comfort build करें
- Exploration के साथ positive associations create करें

### Year 2: Understanding Deepen करना

- अपनी favorite positions refine करें
- अपने couple के unique preferences समझें
- Smooth transitions और combinations develop करें
- Variety के around rituals create करें

### Year 3+: Mastery and Evolution

- अपना personal style perfect करें
- जैसे आपकी relationship evolve हो positions adapt करें
- Curiosity और openness maintain करें
- Connection enhancement पर focus करें

## Seasonal और Life Stage Adaptations

### Early Relationship (0-2 years):

- Connection Builders और Comfort Classics पर focus करें
- Gentle exploration के through trust build करें
- Communication और comfort emphasize करें
- सब कुछ try करने का pressure avoid करें



### Established Relationship (3-10 years):

- Comfort level के base पर सभी categories explore करें
- Novelty और interest maintain करने के लिए variety use करें
- अपनी established connection enhance करने वाली positions पर focus करें
- Familiar और new experiences balance करें

### Long-term Relationship (10+ years):

- एक-दूसरे को rediscover करने के लिए variety use करें
- नए experiences create करने वाली positions पर focus करें
- Physical changes और life circumstances के अनुसार adapt करें
- Playfulness और adventure maintain करें

## अपना Personal Success Plan Create करना

### Monthly Check-ins:

- कौन सी positions ने हमारा connection most enhance किया?
- हम कौन से नए experiences explore करना चाहते हैं?
- Variety हमारी overall relationship को कैसे affect कर रही है?
- हमें कौन से adjustments करने चाहिए?

### Quarterly Reviews:

- अपना personal position menu update करें
- Comfort level changes assess करें
- नई explorations plan करें
- Growth और discoveries celebrate करें

### Annual Relationship Review:

- Variety ने हमारी intimate life को कैसे affect किया है?
- हमने अपने बारे में और एक-दूसरे के बारे में क्या सीखा है?
- आने वाले year में हम कैसे grow करना चाहते हैं?
- हम कौन से नए areas explore कर सकते हैं?



# The Ultimate Goal: Enhanced Connection

Remember करें: Goal position experts बनना नहीं है---goal variety को deeper connection, better communication, और enhanced intimacy के लिए tool के रूप में use करना है।

## Success metrics:

- Preferences के बारे में increased communication
- Enhanced emotional और physical connection
- Reduced routine और boredom
- Improved relationship satisfaction
- Greater confidence और adventure

आपकी variety journey आपकी relationship complicate नहीं करनी चाहिए बल्कि enhance करनी चाहिए। जो आपको closer लाता है उस पर focus करें, और उसे आपकी exploration guide करने दें।

# Conclusion:

## Positions से Connection तक

शुरुआत के अर्जुन और प्रिया को remember करते हैं? उनका transformation 75 positions master करने या bed में ज्यादा athletic बनने के बारे में नहीं था। ये discover करने के बारे में था कि **variety connection serve करती है, performance नहीं---** और **different positions के behind psychology समझना आपकी intimate life transform कर सकता है।**

## जो उन्होंने सीखा (और जो आप आज से implement कर सकते हैं):

- 1. हर position एक purpose serve करती है:** Emotional intimacy के लिए connection builders, fun के लिए playful explorers, intensity के लिए dominance dynamics, security के लिए comfort classics, और achievement के लिए advanced adventures।
- 2. आपका relationship profile matter करता है:** समझना कि आप adventurous explorers, playful experimenters, romantic connectors, intimate classicists, या comfort seekers हैं आपको उन positions choose करने में help करता है जो truly आपका connection enhance करती हैं।
- 3. Quantity के over Quality:** 75 positions try करना जो आपकी style fit नहीं करती उससे बेहतर है 15 positions होना जो perfectly आपकी relationship match करती हैं।
- 4. Variety enhance करती है, replace नहीं करती:** Best intimate relationships variety को reliable favorites के साथ combine करती हैं, novelty को comfort के साथ, adventure को security के साथ।
- 5. Communication everything है:** Positions सिर्फ tools हैं---ये कि आप उनके बारे में कैसे communicate करते हैं, साथ कैसे choose करते हैं, और अपनी relationship में कैसे integrate करते हैं, वो matter करता है।

# आपकी Personal Position Journey

**अपना Position Menu Create करें:** अपने assessment और exploration के base पर, choose करें:

- Emotional intimacy के लिए 3-5 Connection Builders
- Fun और laughter के लिए 2-4 Playful Explorers
- Intensity के लिए 1-3 Dominance Dynamics (अगर comfortable हैं)
- Reliable satisfaction के लिए 4-6 Comfort Classics
- Special occasions के लिए 1-2 Advanced Adventures

## आपका 90-Day Exploration Plan:

- **Days 1-30:** Comfort Classics और Connection Builders पर focus करें
- **Days 31-60:** Playful Explorers add करें और preferences explore करें
- **Days 61-90:** सभी preferred categories integrate करें और अपना personal menu create करें

## Long-term Integration:

- Monthly 1-2 नई positions की exploration
- Quarterly अपने menu की review और adjustment
- Variety और satisfaction के बारे में annual relationship check-in
- Preferences और desires के बारे में ongoing communication

# Positions से Beyond

**ये guide really 75 positions के बारे में नहीं है---ये इनके बारे में है:**

- Variety के psychology को समझना
- Intimacy के बारे में communication improve करना
- अपनी relationship के लिए personalized experiences create करना
- Performance के लिए नहीं बल्कि connection के लिए variety को tool के रूप में use करना
- Informed exploration के through confidence build करना

**आपकी intimate life variety से enhance होने deserve करती है, complicate नहीं होने।** इन positions को tools के रूप में use करें अपना connection deepen करने, अपनी communication improve करने, और वो intimate life create करने के लिए जो आप दोनों desire करते हैं।

**अपने comfort zone की एक position से start करें, और curiosity को वहाँ से आपको guide करने दें। आपकी relationship---और आपका partner---आपको thank करेगा।**

*यह guide intimate variety का comprehensive approach represent करता है, psychological research को practical application के साथ combine करते हुए। अपनी journey continue करें open communication, mutual respect, और अपने partner के साथ share किए जाने वाले unique connection के लिए appreciation के through।*



# Quick Reference Guide

## Mood के अनुसार Position Selection

- **Romantic Evening:** Connection Builders (#1-15)
- **Playful Weekend:** Playful Explorers (#16-30)
- **Passionate Moments:** Dominance Dynamics (#31-45)
- **Relaxed Intimacy:** Comfort Classics (#46-60)
- **Special Occasions:** Advanced Adventures (#61-75)

## Getting Started Checklist

- ✓ Intimacy Profile Assessment complete करें
- ✓ अपनी comfort category से 2-3 positions choose करें
- ✓ Partner के साथ preferences और boundaries discuss करें
- ✓ अपना personal position menu create करें
- ✓ Monthly exploration schedule plan करें

## Your Top 5 Starter Positions

- **Easy Connection:** Face-to-Face Missionary (#1)
- **Comfortable Classic:** Traditional Missionary (#46)
- **Playful Fun:** Cowgirl (#16)
- **Intimate Bonding:** Spooning (#3)
- **Reliable Satisfaction:** Spooning Variations (#47)